

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।

अल्पकालीन निविदा सूचना

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए प्राधिकरण की शर्तों पर मुहरबन्द निविदायें दिनांक 02.07.2015 को दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक सचिव कक्ष/प्राधिकरण सभागार में रखे बाँक्स में प्राप्त की जायेंगी तथा उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में (यदि होें), खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र, निविदा प्राप्ति तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय समय (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) में क्रय किये जा सकते हैं। निविदा खरीदते समय ही धरोहर धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0 जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बन्धक हों, जमा करानी होगी। प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि अलग-अलग जमा करानी होगी। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने, स्वीकार करने एवं कार्य को कई ठेकेदारों में विभाजित करने का अधिकार उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 में निहित होगा तथा किसी भी स्थिति में उपाध्यक्ष, म0वृ0वि0प्रा0 का निर्णय अंतिम होगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0)	धरोहर राशि (रु0)	निविदा मू0 (5०: वैट) सहित (रु0)	ठेकेदार पंजीकृत श्रेणी	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1-	रुकमणी विहार आवासीय योजना में ग्रीन बैल्ट व सड़कों के किनारे पौधों का रोपण एवं अनुरक्षण का कार्य।	26,17,675.00	2,62,000.00	788.00	-	एक माह
2-	गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर कच्चे परिक्रमा मार्ग के किनारे पौधों का रोपण एवं अनुरक्षण का कार्य।	9,48,000.00	95,000.00	315.00	-	एक माह
3-	गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्टोन बैंच की स्थापना करते हुए गजेबों/सिटआउट्स के निर्माण व स्थापना का कार्य।	-	-	525.00	-	एक माह

1. क्रम सं0-1 व 2 पर वर्णित कार्य की निविदा सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों में पंजीकृत एवं समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव रखने वाली एजेन्सी/फर्म की ही मान्य होगी। क्रम संख्या-3 पर स्थित स्टोन वर्क के कार्य की निविदा अनुभवी फर्मों/विक्रेताओं द्वारा दिया जाना ही मान्य होगा तथा उनके द्वारा अपनी दरें प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें दी गयी दरों के आधार पर कार्य की आकलित धनराशि का दस प्रतिशत धनराशि की एफ.डी.आर. जो कि सचिव, म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा के पक्ष में बंधक हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ संलग्न होने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्य से सम्बन्धित डिजायन, ड्राइंग व शर्तों का अवलोकन प्राधिकरण में किसी भी कार्य दिवस में कर सकते हैं। निविदादाता निविदा देने से पूर्व कार्यस्थल, स्थिति एवं

दशाओं का भली-भाँति निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन कर लें। निविदा स्वीकृति के बाद कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य नहीं होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08, टी०सी० दिनांक 08 जून 2012 में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु प्राप्त टेण्डर स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में “कट आफ लिमिट” से प्रतिशत बिलो टेण्डर पर कार्य स्वीकार करने के साथ-साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी लिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत बिलो (निम्न) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (निम्न) दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी, राष्ट्रीकृत बैंक की एफ०डी०आर०/बैंक गारण्टी/एन०एस०सी० जो सचिव, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के नाम बंधक हो, जमा करायी जायेगी।

3- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों विनियम) अधिनियम 1996 तथा प्रदेश नियमावली वर्ष 2009 के अन्तर्गत अधिष्ठानों व श्रमिकों का पंजीयन नियमानुसार कराना अनिवार्य होगा।

4- शासन द्वारा समय-समय पर जो टैक्स निर्धारित किया जायेगा, उसकी कटौती ठेकेदार के बिल से नियमानुसार की जायेगी

5- यदि कार्य में सर्विस टैक्स की देयता होगी तो उक्त के जमा कराने के साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर सर्विस टैक्स की धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

6- उपरोक्त कार्यो के निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मयूर बिहार, मथुरा से निर्धारित निविदा मूल्य जमा कर क्रय किये जा सकते हैं।

नोट:- निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भलीभाँति पढ़ व समझ लें। निविदा के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। निविदा की शर्तें प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण की वैबसाइट www.mvda.in पर देखा जा सकता है।

सचिव,

म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा।